

# एकक 12

## ऐल्डहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल

### उद्देश्य






इस एकक के अध्ययन के पश्चात् आप -

- ऐल्डहाइडों, कीटोनों एवं कार्बोक्सिलिक अम्लों के साधारण व IUPAC नाम लिख सकेंगे।
- कार्बोनिल व कार्बोक्सिलिक समूह युक्त यौगिकों की संरचना लिख सकेंगे।
- उपरोक्त वर्गों के यौगिकों के विरचन की महत्वपूर्ण विधियों एवं अभिक्रियाओं का वर्णन कर सकेंगे।
- ऐल्डहाइडों, कीटोनों एवं कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणधर्मों, रासायनिक अभिक्रियाशीलता और संरचनाओं के मध्य परस्पर संबंध स्थपित कर सकेंगे।
- ऐल्डहाइडों व कीटोनों की कुछ चर्यनित अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को समझा सकेंगे।
- कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता को प्रभावित करने वाले कारकों तथा उनकी अभिक्रियाओं को समझ सकेंगे।
- ऐल्डहाइडों, कीटोनों एवं कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोगों का वर्णन कर सकेंगे।

**कार्बनिक रसायन में कार्बोनिल यौगिकों का अत्यधिक महत्व है। यह वस्त्रों, सुगन्धों, प्लास्टिकों तथा औषधों के संबंधक होते हैं।**


पिछले एकक में आपने ऐसे कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया है, जिनमें प्रकार्यात्मक समूह में कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के मध्य एकल आबंध पाया जाता है। इस एकक में आप ऐसे कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनमें प्रकार्यात्मक समूह में कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य द्विआबंध ( $>\text{C=O}$ ) होता है जिसे कार्बोनिल समूह कहते हैं। यह कार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण प्रकार्यात्मक समूह है।

ऐल्डहाइडों में कार्बोनिल समूह कार्बन व हाइड्रोजन से, जबकि कीटोनों में यह दो कार्बन परमाणुओं से आबंधित रहता है। कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह ऑक्सीजन से आबंधित रहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न कहलाते हैं (उदाहरणार्थ, एस्टर एवं एनहाइड्राइड), जबकि वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह का कार्बन नाइट्रोजन या हैलोजन से जुड़ा रहता है, क्रमशः एमाइड व ऐसिल हैलाइड कहलाते हैं। इन वर्गों के यौगिकों के सामान्य सूत्र नीचे दिए गए हैं—





ऐल्डहाइड, कीटोन एवं कार्बोिक्सिलिक अम्ल पौधों और जीवों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। ये जीवों की जैव रासायनिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये प्रकृति में सुगंध व स्वाद प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ, वेनेलिन (बेनीला सेम से प्राप्त) सौलिसिल ऐल्डहाइड (मेंडोस्वीट से प्राप्त) तथा सिनेमैल्डहाइड (दाल चीनी से प्राप्त) रुचिकर सुगंध देते हैं।



ये अनेक खाद्य उत्पादों व औषधों में सुगंध प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। इस वर्ग के कुछ यौगिकों का उत्पादन विलायक (ऐसीटोन) और आसंजी (चिपकने वाले) पदार्थ, पेट, रेज़िन, सगंध, प्लास्टिक, वस्त्र आदि बनाने के लिए किया जाता है।

## 12.1 कार्बोनिल यौगिकांचे नामकरण इवं संरचना


### 12.1.1 नामपद्धति

( I ) ऐल्डहाइड एवं कीटोन


ऐलिडहाइड एवं कीटोन सरलतम और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्बोनिल यौगिक हैं।

ऐलिडहाइडों एवं कीटोनों के नामकरण की दो पद्धतियाँ हैं—



(क) सामान्य नाम— ऐलिडहाइड एवं कीटोन प्रायः IUPAC नामपद्धति की अपेक्षा अपने सामान्य नामों से जाने जाते हैं। ऐलिडहाइड के सामान्य नाम संगत कार्बोक्सिलिक अम्लों (खंड 12.6.1) के अंग्रेजी में लिखे सामान्य नामों के अंत में स्थित अनुलग्न इक के स्थान पर ऐलिडहाइड अनुलग्न लगाकर प्राप्त करते हैं। साथ ही कार्बोक्सिलिक अम्ल या ऐलिडहाइड के नाम में वास्तविक स्रोत का नाम लेटिन या ग्रीक में प्रतिबिंबित होता है। कार्बन शृंखला में प्रतिस्थापियों की स्थिति को ग्रीक अक्षरों  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ , आदि से प्रदर्शित करते हैं।  $\alpha$  उस कार्बन परमाणु को कहते हैं जो साथे ऐलिडहाइड समूह के कार्बन परमाणु से संलग्न होता है। तत्पश्चात्  $\beta$  कार्बन तथा अन्य इसी क्रम में आगे चलते हैं। उदाहरणार्थ—




कीटोनों के सामान्य नाम व्युत्पन्न करने के लिए कार्बोनिल समूह से जुड़े दो ऐल्किल या ऐरिल समूहों का नामकरण किया जाता है। प्रतिस्थापियों की स्थिति को ग्रीक अक्षरों  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\beta'$  आदि द्वारा प्रदर्शित करते हैं।  $\alpha$ ,  $\alpha'$  कार्बन परमाणु वे होते हैं जो सीधे कार्बोनिल समूह ( $>C=O$ ) से संलग्न होते हैं। कुछ कीटोनों के ऐतिहासिक सामान्य नाम होते हैं जैसे सरलतम डाइमेथिल कीटोन को ऐसीटोन कहते हैं। ऐल्किल फेनिल कीटोन का नाम लिखने के लिए ऐसिल समूह को फ़ीनॉन के साथ पूर्वलग्न की तरह जोड़कर लिखा जाता है; उदाहरणार्थ—



(ख) आईयूपीएसी (IUPAC) नाम— खुली शृंखला वाले एलिफैटिक ऐल्डहाइडों एवं कीटोनों के IUPAC नाम प्राप्त करने के लिए संगत ऐल्केन के अंग्रेजी में लिखे नाम के अंत में स्थित इ(-e) के स्थान पर क्रमशः अल (-al) एवं ओन (-one) अनुलग्न लगाते हैं। ऐल्डहाइडों में कार्बन की सबसे लंबी शृंखला का अंकन उस सिरे से शुरू किया जाता है जहाँ ऐल्डहाइड समूह स्थित होता है जबकि कीटोनों में उस सिरे से अंकन करते हैं, जो कार्बोनिल समूह के निकट होता है। प्रतिस्थापियों को पूर्वलग्न के रूप में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार, कार्बन शृंखला में अंकों द्वारा स्थित प्रदर्शित करते हुए लिखते हैं। चक्रीय कीटोनों पर भी यही नियम लागू होता है, जिनमें कार्बोनिल के कार्बन परमाणु की स्थिति की संख्या एक (1) होती है। जब ऐल्डहाइड समूह वलय से संयुक्त होता है तो साइक्लोऐल्केन (चक्रीय ऐल्केन) का नाम लिखने के पश्चात् अनुलग्न कार्बोल्डहाइड (Carbaldehyde) जोड़ देते हैं। वलय के कार्बन परमाणुओं का संख्यांकन उस कार्बन परमाणु से आरंभ करते हैं, जिससे ऐल्डहाइड समूह संयुक्त होता है। सरलतम ऐरोमैटिक ऐल्डहाइड, जिसमें ऐल्डहाइड समूह बेन्जीन वलय पर स्थित होता है, का नाम बेन्जीनकार्बोल्डहाइड है। यद्यपि, IUPAC पद्धति द्वारा सामान्य नाम बेन्जैल्डहाइड भी स्वीकृत है। अन्य प्रतिस्थापित ऐरोमैटिक ऐल्डहाइडों के नाम बेन्जैल्डहाइड के व्युत्पन्न के रूप में दिए जाते हैं।






ऐल्डहाइडों एवं कीटोनों के कुछ सामान्य एवं आईयूपीएसी ( IUPAC ) नामों को सारणी 12.1 में दिया गया है—

सारणी 12.1— ऐल्डहाइडों व कीटोनों के सामान्य और IUPAC नाम


संरचना	सामान्य नाम	आई.यू.पी.ए.सी. नाम
ऐल्डहाइड		
HCHO	फार्मेलिडहाइड	मेथेनैल
CH <sub>3</sub> CHO	ऐसीटैलिडहाइड	ऐथेनैल
(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHCHO	आइसोब्यूटिरऐल्डहाइड	2-मेथिलप्रोपेनैल
	γ-मेथिलसाइक्लोहेक्सेनकार्बोलिडहाइड	3-मेथिलसाइक्लोहेक्सेनकार्बोलिडहाइड
CH <sub>3</sub> CH(OCH <sub>3</sub> )CHO	α-मेथॉक्सीप्रोपिअनैलिडहाइड	2-मेथॉक्सीप्रोपेनैल
CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CHO	वैलरेलिडहाइड	पेन्टेनैल
CH <sub>2</sub> =CHCHO	ऐक्रोलीन	प्रोप-2-इनैल
	थैलैलिडहाइड	बेन्जीन-1, 2-ट्राइकार्बोलिडहाइड
	m-ब्रोमोबेन्जैलिडहाइड	3-ब्रोमोबेन्जैलिडहाइड अथवा 3-ब्रोमोबेन्जीनकार्बोलिडहाइड
कीटोन		
CH <sub>3</sub> COCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	मेथिल-n-प्रोपिल कीटोन	पेन्टेन-2-ऑन
(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHCOCH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	डाइआइसोप्रोपिल कीटोन	2,4-डाइमेथिलपेन्टेन-3-ऑन
	α-मेथिलसाइक्लोहेक्सेनोन	2-मेथिलसाइक्लोहेक्सेनोन
(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> C=CHCOCH <sub>3</sub>	मेसिटिल ऑक्साइड	4-मेथिलपेन्ट-3-इन-2-ऑन

## 12.1.2 कार्बोनिल समूह की संरचना

कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु  $sp^2$  संकरित अवस्था में होता है तथा तीन सिग्मा ( $\sigma$ ) आबंध निर्मित करता है। कार्बन का चौथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन कार्बन के असंकरित  $p$ -कक्षक में होता है तथा ऑक्सीजन के  $p$ -कक्षक के साथ अतिव्यापन करके एक  $\pi$  आबंध बनाता है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु पर दो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युगल उपस्थित होते हैं। इस प्रकार कार्बोनिल समूह का कार्बन तथा इससे आबंधित तीन परमाणु एक ही तल में होते हैं एवं  $\pi$  इलेक्ट्रॉन अभ्र इस तल के ऊपर एवं नीचे होता है। बंधक कोण लगभग  $120^\circ$  का होता है जैसा कि समतलीय त्रिकोणीय संरचना में अपेक्षित है (चित्र 12.1)।



चित्र 12.1— कार्बोनिल समूह निर्माण का कक्षीय आरेख



कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन की विद्युतऋणात्मकता उच्च होने के कारण कार्बन-ऑक्सीजन द्विक आबंध ध्रुवित हो जाता है। अतः कार्बोनिल समूह का कार्बन एक इलेक्ट्रॉनरागी (लूड्स अम्ल) केंद्र और कार्बोनिल ऑक्सीजन एक नाभिकरागी (लूड्स क्षारक) केंद्र होता है। कार्बोनिल यौगिकों में पर्याप्त द्विध्रुव आधर्घूर्ण होता है और ये ईंथर से अधिक ध्रुवीय होते हैं। कार्बोनिल समूह की उच्च ध्रुवता, अनुनाद के आधार पर समझाई जा सकती है, जिसमें एक उदासीन संरचना (क) एवं एक द्विध्रुव संरचना (ख) है जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है।

### पाठ्यनिहित प्रश्न

**12.1** निम्न यौगिकों की संरचना लिखिए—

- (i)  $\alpha$ -मेथोक्सीप्रोपिओक्सीलिडहाइड
- (ii) 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनैल
- (iii) 2-हाइड्रॉक्सीसाइक्लोपेन्टेन कार्बोलिडहाइड
- (iv) 4-ऑक्सोपेन्टैनैल
- (v) डाइ-द्वितीयकब्यूटिल कीटोन
- (vi) 4-क्लोरोऐसीटोफीनैन

## 12.2 ऐलिडहाइडों एवं कीटोनों का विरचन

### 12.2.1 ऐलिडहाइडों एवं कीटोनों का विरचन

ऐलिडहाइडों एवं कीटोनों के विरचन की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ इस प्रकार हैं—

- ऐल्कोहॉलों के ऑक्सीकरण से सामान्यतः ऐलिडहाइड एवं कीटोन क्रमशः प्राथमिक व द्वितीयक ऐल्कोहॉलों के ऑक्सीकरण से बनाए जाते हैं (एकक 11, कक्षा XII)।
- ऐल्कोहॉलों के विहाइड्रोजनन से यह विधि वाष्पशील ऐल्कोहॉलों के लिए उचित होती है तथा यह एक औद्योगिक अनुप्रयोग की विधि है। इस विधि में ऐल्कोहॉल के वाष्प को तप्त भारी-धातु उत्प्रेरक (सिल्वर अथवा कॉपर) के ऊपर से प्रवाहित करते हैं, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक व द्वितीयक ऐल्कोहॉल क्रमशः ऐलिडहाइड व कीटोन देते हैं (एकक 11 कक्षा XII)।


### 3. हाइड्रोकार्बन से

- (i) ऐल्कीनों के ओज़ोनी अपघटन से- जैसा कि हम जानते हैं ऐल्कीनों के ओज़ोनी अपघटन के पश्चात् प्राप्त उत्पाद की जिंक धूल व जल के साथ अभिक्रिया के द्वारा ऐल्डहाइड या कीटोन अथवा दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, जो ऐल्कीन में उपस्थित प्रतिस्थापन के प्रकार पर निर्भर करता है। (एकक 13, कक्षा XI)
- (ii) ऐल्काइनों के जलयोजन से-  $\text{H}_2\text{SO}_4$  एवं  $\text{HgSO}_4$  की उपस्थिति में एथाइन में जलयोजन द्वारा ऐसीटैल्डहाइड प्राप्त होता है। अन्य सभी ऐल्काइनों इस अभिक्रिया द्वारा कीटोन प्रदान करती हैं (एकक 13, कक्षा XI)।

#### 12.2.2 ऐल्डहाइडों का विरचन

##### 1. ऐसिल क्लोरोराइड से (अम्ल क्लोरोराइड)

ऐसिल क्लोरोराइड (अम्ल क्लोरोराइड) के बेरियम सल्फेट पर अवर्लॉबिट पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन से ऐल्डहाइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को रोजेनमुंड अपचयन (Rosenmund Reduction) कहते हैं।




##### 2. नाइट्रोइल एवं एस्टर से

हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोइल स्टैनस क्लोरोराइड द्वारा संगत इमीन में अपचित हो जाते हैं। जो जलअपघटन करने पर संगत ऐल्डहाइड देते हैं।




यह अभिक्रिया स्टीफैन अभिक्रिया (Stephen Reaction) कहलाती है।

वैकल्पिक अभिक्रिया में नाइट्रोइल को डाइआइसोब्यूटिलऐलुमिनियम हाइड्रोइड (DIBAL-H) द्वारा चयनित अपचयन से इमीन में बदल लेते हैं एवं तत्पश्चात् इसके जलअपघटन से ऐल्डहाइड प्राप्त हो जाता है।



इसी प्रकार से एस्टर भी DIBAL-H द्वारा ऐल्डहाइड में अपचित हो जाते हैं।




##### 3. हाइड्रोकार्बन से

ऐरोमैटिक ऐल्डहाइड (बेन्जैल्डहाइड व इसके व्युत्पन्न) ऐरोमैटिक हाइड्रोकार्बन द्वारा निम्न प्रकार से बनाए जाते हैं-

(i) मेथिल बेन्जीन के ऑक्सीकरण द्वारा- प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक टॉल्बूइन व इसके व्युत्पन्नों को बेन्जोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। इस ऑक्सीकरण


को उपस्थित अभिकर्मकों द्वारा ऐल्डहाइड चरण में ही रोकना संभव है। यह मेथिल समूह को एक मध्यवर्ती में परिवर्तित कर देते हैं जिसे पुनः ऑक्सीकृत करना कठिन होता है। इसके लिए निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है—

(क) क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग से— क्रोमिल क्लोराइड ( $\text{CrO}_2\text{Cl}_2$ ) मेथिल समूह को एक क्रोमियम संकुल में ऑक्सीकृत कर देता है जो जल अपघटन द्वारा संगत बेन्ज़ैलिडहाइड बनाता है।




यह अभिक्रिया ईटार्ड अभिक्रिया (Etard Reaction) कहलाती है।


(ख) क्रोमिक ऑक्साइड के उपयोग से ( $\text{CrO}_3$ )—टॉल्रीन या प्रतिस्थापित टॉल्रीन को एसीटिक एनहाइड्राइड में क्रोमिक ऑक्साइड के साथ अभिकृत कराने पर बेन्जिलिडीन डाइऐसीटेट प्राप्त होता है। बेन्जिलिडीन डाइऐसीटेट जलीय अम्ल के साथ जल अपघटित होकर संगत बेन्जैलिड हाइड बनाता है।



( ii ) पाश्वर्ष श्रृंखला के क्लोरीन के पश्चात् जल अपघटन— टॉल्झिन पाश्वर्ष श्रृंखला क्लोरीन द्वारा बेन्जल क्लोराइड देती है, जो जल अपघटन द्वारा बेन्जैलिडहाइड बनाता है। यह बेन्जैलिडहाइड के औद्योगिक उत्पादन की विधि है।



( iii )गाटरमान-कॉख अभिक्रिया से— जब बेन्जीन या इसके व्युत्पन्न निर्जल ऐलुमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं, तो बेन्जैलिडहाइड या प्रतिस्थापित बेन्जैलिडहाइड प्राप्त होते हैं।





यह अभिक्रिया गाटरमान-कॉख अभिक्रिया ( Gatterman-Koch Reaction ) कहलाती है।

### 12.2.3 कीटोनों का विरचन


#### 1. ऐसिल क्लोराइड से

ग्रीन्यार अभिकर्मक तथा कैडमियम क्लोराइड की अभिक्रिया से प्राप्त डाइऐलिकलकैडमियम की ऐसिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर कीटोन प्राप्त होते हैं।




#### 2. नाइट्रोइल से

नाइट्रोइल व ग्रीन्यार अभिकर्मक की क्रिया से प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन कराने से कीटोन प्राप्त होते हैं।



#### 3. बेन्जीन या प्रतिस्थापित बेन्जीन से- निर्जल ऐलुमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेन्जीन या प्रतिस्थापित बेन्जीन, अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर संगत कीटोन देते हैं। यह अभिक्रिया फ्रीडेल-क्राफ्ट्स ऐसीटिलेशन अभिक्रिया (Friedal-Craft's Acylation reaction) कहलाती हैं।



#### उदाहरण 12.1

निम्नलिखित रूपांतरणों को करने के लिए अभिकर्मकों के नाम बताइए-


- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| (i) हेक्सेन-1-ऑल से हेक्सेनैल                                       | (iv) ऐथेन नाइट्रोइल से ऐथेनैल  |
| (ii) साइक्लोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सेनोन                           | (v) ऐलिल ऐल्कोहॉल से प्रोपिनैल |
| (iii) <i>p</i> -फ्लुओरोट्युर्झिन से <i>p</i> -फ्लुओरोबेन्ज़ील्डहाइड | (vi) ब्यूट-2-ईन से ऐथेनैल      |

#### हल

- |   |  |
|---|--|
| (i) $\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+ \text{CrO}_3\text{Cl}^-$ (PCC)                                   | (v) पीसीसी                                     |
| (ii) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ अम्लीय माध्यम में  | (vi) $\text{O}_3/\text{H}_2\text{O}$ -जिंक धूल |
| (iii) $\text{CrO}_3(\text{CH}_3\text{CO})_2$ की उपस्थिति में /<br>1. $\text{CrO}_2\text{Cl}_2$ 2. HOH |  |
| (iv) डाईआइसोब्यूटिलऐलुमिनियमहाइट्राइड (DIBAL-H)   |  |

## पाठ्यनिहित प्रश्न

12.2 निम्न अभिक्रियाओं के उत्पादों की संरचना लिखिए—




## 12.3 भौतिक गुणधर्म

कक्ष ताप पर मेथेनैल गैस के रूप में होती है, एथेनैल एक वाष्पशील द्रव है। अन्य ऐलिडहाइडों एवं कीटोन कक्ष तापक्रम पर द्रव या ठोस होते हैं। ऐलिडहाइडों व कीटोनों के क्वथनांक समतुल्य आण्विक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों और ईथरों से अधिक होते हैं। यह ऐलिडहाइडों एवं कीटोनों में द्विध्रुव - द्विध्रुव आकर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न दुर्बल आण्विक संगुणन के कारण होते हैं। इनके क्वथनांक भी समतुल्य आण्विक द्रव्यमान वाले ऐल्कोहॉलों से अंतराआण्विक हाइड्रोजन आबंध अनुपस्थित होने के कारण कम होते हैं। निम्न यौगिकों को, जिनका आण्विक द्रव्यमान 58 और 60 है, क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है।

क्वथनांक (K)	आण्विक द्रव्यमान
n-ब्यूटन	273
मेथॉक्सीएथेन	281
प्रोपेनैल	322
ऐसीटोन	329
प्रोपेन-1-ऑल	370

ऐलिडहाइडों व कीटोनों के निम्नतर सदस्य जैसे मेथेनैल, एथेनैल एवं प्रोपेनोन जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने के कारण प्रत्येक अनुपात में जल में मिश्रणीय होते हैं।



परंतु जैसे-जैसे ऐलिकल शृंखला की लंबाई बढ़ती है, इनकी घुलनशीलता तेज़ी से घटती जाती है। सभी ऐलिडहाइड व कीटोन सभी कार्बनिक विलायकों जैसे— बेन्जीन, ईथर, मेथेनैल, क्लोरोफॉर्म इत्यादि में सुगमतापूर्वक घुलनशील होते हैं। निम्नतर ऐलिडहाइड में तीक्ष्ण गंध होती है। जैसे-जैसे अणुओं का आकार बढ़ता जाता है गंध कम तीक्ष्ण होती जाती है तथा सुगंध बढ़ती जाती है। वास्तव में प्रकृति में पाए जाने वाले अनेक ऐलिडहाइडों व कीटोनों का उपयोग सुगंध व सुरुचि कर्मकों के सम्मिश्रण में किया जाता है।

**उदाहरण 12.2** निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए—




**हल** यौगिकों के आण्विक द्रव्यमान 72 से 74 के परास में हैं। क्योंकि केवल ब्यूटेन-1-ऑल ही अत्यधिक अंतराआण्विक हाइड्रोजन आबंधन के कारण संगुणित द्रव है, इसलिए इसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। ब्यूटेनैल, एथॉक्सीएथेन से अधिक ध्रुवीय है अतः ब्यूटेनैल में अंतराआण्विक द्विध्रुव आकर्षण प्रबल होता है। *n*-पेन्टेन में केवल दुर्बल वांडरवाल्स बल होते हैं, अतः दिए गए यौगिकों के क्वथनांक बढ़ते क्रम में इस प्रकार होंगे—



### पाठ्यनिहित प्रश्न

**12.3** निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।




## 12.4 रासायनिक अभिक्रियाएँ

ऐल्डहाइड एवं कीटोन, दोनों में कार्बोनिल क्रियात्मक समूह विद्यमान हैं अतः ये एक समान रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं।

### 1. नाभिकरागी योगज अभिक्रिया

ऐल्कीनों में जैसी इलेक्ट्रॉनरागी योगज अभिक्रियाएं देखी जाती हैं (देखें एकक 13, कक्षा XI), उसके विपरीत ऐल्डहाइड व कीटोन नाभिकरागी योगज अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं।

(i) नाभिकरागी योगज अभिक्रियाओं की क्रियाविधि— नाभिकरागी ध्रुवीय कार्बोनिल कार्बन समूह के इलेक्ट्रॉनरागी कार्बन पर उस दिशा से आक्रमण करता है जो कार्बोनिल कार्बन के  $sp^2$  संकरित कक्षकों के तल के लगभग लंब पर होती है (चित्र 12.2)। इस प्रक्रिया में कार्बन की संकरण अवस्था  $sp^2$  से  $sp^3$  हो जाती है तथा चतुष्फलकीय ऐल्कॉक्साइड मध्यवर्ती बनता है। यह मध्यवर्ती अभिक्रिया माध्यम से एक प्रोटॉन प्राप्त करके विद्युत उदासीन उत्पाद देता है। कुल परिणाम कार्बन-ऑक्सीजन द्विक आबंध पर  $\text{Nu}^-$  व  $\text{H}^+$  का योगज होता है। जैसा कि चित्र 12.2 में दर्शाया गया है।



चित्र 12.2— कार्बोनिल कार्बन पर नाभिकरागी आक्रमण


(ii) अभिक्रियाशीलता— इलेक्ट्रॉनिक व त्रिविम प्रभावों के कारण नाभिकरागी योगज अभिक्रियाओं में ऐल्डहाइड कीटोनों की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। त्रिविम रूप से नाभिकरागी के कार्बोनिल कार्बन तक पहुँचने में कीटोनों में उपस्थित दो सापेक्षिक बड़े प्रतिस्थापी समूह ऐल्डहाइडों की अपेक्षा अधिक बाधा उत्पन्न करते हैं, जिनमें केवल एक ही ऐसा प्रतिस्थापी उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐल्डहाइड कीटोन से ज्यादा क्रियाशील होते हैं, क्योंकि कीटोन में उपस्थित दो ऐल्किल समूह कार्बोनिल की इलेक्ट्रॉनरागी प्रकृति को ऐल्डहाइड की तुलना में कम कर देते हैं।

### उदाहरण 12.3

नाभिकरागी योगज अभिक्रिया में बेन्जैलिडहाइड प्रोपेनैल से कम अभिक्रियाशील होगा अथवा अधिक, आप क्या अपेक्षा करेंगे? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए।

**हल**


बेन्जैलिडहाइड में कार्बोनिल समूह का कार्बन परमाणु प्रोपेनैल के कार्बोनिल समूह के कार्बन की




तुलना में कम इलेक्ट्रॉनरागी होता है। बेन्जैलिडहाइड में अनुनाद के कारण कार्बोनिल समूह की ध्रुवता कम हो जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है अतः यह प्रोपेनैल से कम अभिक्रियाशील होता है।

(iii) नाभिकरागी योगज और नाभिकरागी योगज-विलोपन अभिक्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण—

(क) हाइड्रोजन सायनाइड ( $\text{HCN}$ ) का संयोजन— ऐलिडहाइड व कीटोन हाइड्रोजन सायनाइड से ( $\text{HCN}$ ) अभिकृत होकर संगत सायनोहाइड्रिन देते हैं। शुद्ध  $\text{HCN}$  के साथ यह अभिक्रिया बहुत थीमी होती है; अतः यह क्षार द्वारा उत्प्रेरित की जाती है और जनित सायनाइड आयन प्रबल नाभिकस्नेही ( $\text{CN}^-$ ) कार्बोनिल यौगिकों पर संयोजित होकर संगत सायनोहाइड्रिन देते हैं। सायनोहाइड्रिन उपयोगी संश्लेषित मध्यवर्ती होते हैं।





(ख) सोडियम बाइसल्फाइड का संयोजन— ऐलिडहाइड एवं कीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट के साथ संयुक्त होकर योगज उत्पाद देते हैं। त्रिविमीय प्रभाव के कारण साम्यावस्था की स्थिति अधिकांश ऐलिडहाइडों के लिए बाईं ओर तथा अधिकतर कीटोनों के लिए बाईं ओर होती है। हाइड्रोजन सल्फाइट योगज उत्पाद जल में अविलोय होता है, जो तनु खनिज अम्लों अथवा क्षार के साथ अभिक्रिया कर पुनः मूल कार्बोनिल यौगिकों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए यह ऐलिडहाइडों के पृथक्करण व परिष्करण के लिए उपयोगी होते हैं।



(ग) ग्रिन्यार अभिकर्मकों का संयोजन (देखिए एकक 11, कक्षा XII)

(घ) ऐल्कोहॉलों का संयोजन— ऐलिडहाइड, मोनोहाइड्रिक ऐल्कोहॉल की एक तुल्यांक मात्रा के साथ शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कर




ऐल्कॉक्सी ऐल्कोहॉल मध्यवर्ती बनाते हैं, जिन्हें हेमीऐसीटैल कहते हैं। यह पुनः एक मोल ऐल्कोहॉल से अभिक्रिया कर जैम-डाइऐल्कॉक्सी यौगिक बनाते हैं, जिन्हें ऐसीटैल कहते हैं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

कीटेन इन्हीं अभिक्रिया परिस्थितियों में एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ अभिक्रिया करके चक्रीय उत्पाद बनाते हैं, जिसे एथिलीन ग्लाइकॉल कीटेल कहते हैं। शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड कार्बोनिल समूह की




ऑक्सीजन को प्रोटोनीकृत करती है, जिससे कार्बोनिल समूह की इलेक्ट्रॉनरागी प्रवृत्ति बढ़ती है जो एथिलीन ग्लाइकॉल पर नाभिकरणी आक्रमण को सरल बनाती है। ऐसीटैल व कीटेल जलीय खनिज अम्लों के साथ जलअपघटित होकर क्रमशः संगत ऐल्डहाइड व कीटोन देते हैं।

(च) अमोनिया व इसके व्युत्पन्नों का संयोजन— अमोनिया व इसके व्युत्पन्न  $\text{H}_2\text{N-Z}$



जैसे नाभिकरणी ऐल्डहाइड व कीटोन के कार्बोनिल समूह पर जुड़ते हैं। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है तथा अम्ल से उत्प्रेरित होती है। मध्यवर्ती के द्वात निर्जलीकरण द्वारा  $\text{>C=N-Z}$  बनाने के कारण साम्यावस्था उत्पाद को बनाने में सहायक होती है।


सारणी 12.2— ऐल्डहाइडों व कीटोनों ( $\text{>C=N-Z}$ )— के कुछ N- प्रतिस्थापित व्युत्पन्न

$\text{Z}$	अभिकर्मक का नाम	कार्बोनिल व्युत्पन्न	उत्पाद
—H	अमोनिया	$\text{>C=NH}$	इमीन
—R	ऐमीन	$\text{>C=NR}$	प्रस्थापित इमीन (शिफ क्षारक)
—OH	हाइड्रॉक्सिल ऐमीन	$\text{>C=N-OH}$	ऑक्साम
—NH <sub>2</sub>	हाइड्रैजीन	$\text{>C=N-NH}_2$	हाइड्रैजोन
	फेनिल हाइड्रैजीन	$\text{>C=N-NH-}\text{C}_6\text{H}_5$	फेनिलहाइड्रैजोन
	2, 4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रैजीन (2,4-DNP)*	$\text{>C=N-NH-}\text{C}_6\text{H}_3(\text{NO}_2)_2$	2, 4 डाइनाइट्रो- फेनिलहाइड्रैजोन
	सेमीकार्बेज्जाइड	$\text{>C=N-NH-C(=O)-NH}_2$	सेमीकार्बेज्जोन

\* 2, 4-DNP व्युत्पन्न पीले, नारंगी या लाल ठोस होते हैं, जो ऐल्डहाइड व कीटोन के अभिलक्षण में उपयोगी हैं।

## 2. अपचयन


- (i) ऐक्लोहॉलों में अपचयन— सोडियम बोरोहाइड्राइड ( $\text{NaBH}_4$ ) अथवा लीथियम ऐल्युमिनियम हाइड्राइड ( $\text{LiAlH}_4$ ) या उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन द्वारा ऐल्डहाइड व कीटोन अपचित होकर क्रमशः प्राथमिक तथा द्वितीयक ऐक्लोहॉल देते हैं (एक II, कक्षा XII)।
- (ii) हाइड्रोकार्बनों में अपचयन— ऐल्डहाइड एवं कीटोनों का कार्बोनिल समूह अमलगमित जिक एवं सांद्र हाइड्रॉक्लोरिक अम्ल द्वारा अभिक्रिया से, (क्लीमेन्सन अपचयन) या हाइड्रौजीन के साथ अभिक्रिया करने के बाद, ऐथिलीन ग्लाइकॉल जैसे उच्च क्वथनांक वाले विलायक में सोडियम या पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गरम करने पर  $-\text{CH}_2$  समूह में परिवर्तित हो जाता है (बोल्फ-किशनर अपचयन)।




बर्नर्ड टॉलेन्स (1841-1918)  
गौटिनेन विश्वविद्यालय, जर्मनी में  
रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे।

## 3. ऑक्सीकरण

ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऐल्डहाइड कीटोन से भिन्न व्यवहार करते हैं ऐल्डहाइड सामान्य ऑक्सीकारकों— जैसे, नाइट्रिक अम्ल, पोटैशियम परमैग्नेट, पोटैशियम डाइक्रोमेट आदि के द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। यहाँ तक की मूदु ऑक्सीकरण कर्मक मुख्यतया टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन भी ऐल्डहाइडों को ऑक्सीकृत कर देते हैं।



कीटोनों का ऑक्सीकरण सामान्यतः प्रबल परिस्थितियों, जैसे— प्रबल ऑक्सीकरण कर्मकों और उच्च ताप पर होता है। इनके ऑक्सीकरण में कार्बन-कार्बन आबंध का विदलन होता है, जिससे अनेक कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या, मूल कार्बोनिल यौगिक के कार्बन परमाणुओं से कम होती है।




नीचे दिए गए मूदु ऑक्सीकरण कर्मक ऐल्डहाइडों और कीटोनों में विभेद करने के लिए प्रयुक्त होते हैं—


- (i) टॉलेन-परीक्षण— ऐल्डहाइड को ताजा बने अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट विलयन (टॉलेन अभिकर्मक) के साथ गर्म करने पर सिल्वर धातु बनने के कारण चमकदार सिल्वर दर्पण बन जाता है। ऐल्डहाइड संगत कार्बोक्सिलेट ऋणायन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यह अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न होती है।



( ii ) फेलिंग-परीक्षण— फेलिंग अभिकर्मक में दो विलयन फेलिंग विलयन A व फेलिंग विलयन B होते हैं। फेलिंग विलयन A जलीय कॉपर सल्फेट तथा फेलिंग विलयन B सोडियम पोटैशियम टार्ट्रेट (रोशेल लवण) होता है। परीक्षण से पूर्व दोनों विलयन समान मात्रा में मिलाए जाते हैं। ऐलिडहाइड को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर लाल-भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। ऐलिडहाइड संगत कार्बोक्सिलेट ऋणायन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऐरोमैटिक ऐलिडहाइड इस परीक्षण के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते।



( iii ) मेथिल कीटोन का हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण— ऐसे कीटोन जिसमें कम से कम एक मेथिल समूह कार्बोनिल कार्बन परमाणु से आबर्धित होता है (मेथिल कीटोन), सोडियम हाइपोहैलाइट द्वारा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में आक्सीकृत हो जाते हैं, जिसमें कार्बोनिल यौगिक की अपेक्षा एक कार्बन परमाणु कम होता है। मेथिल समूह हैलाफार्म में परिवर्तित हो जाता है। यदि अणु में कार्बन-कार्बन द्विकाबध उपस्थित हो तो वह इस ऑक्सीकरण द्वारा अप्रभावित रहता है।





सोडियम हाइपोआयोडाइट द्वारा आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, भी  $\text{CH}_3\text{CO}$  या  $\text{CH}_3\text{CH(OH)}$  समूह की पहचान करने के लिए प्रयुक्त होती है, जो ऑक्सीकरण द्वारा  $\text{CH}_3\text{CO}$  समूह बनाती है।

**उदाहरण 12.4** एक कार्बनिक यौगिक (A) जिसका आण्विक सूत्र  $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}$  है, 2, 4-डाईनाइट्रोफेनिल हाइड्रैजीन (2, 4-डी.एन.पी.) अभिकर्मक के साथ नारंगी-लाल अवक्षेप प्रदान करता है और सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर एक पीले रंग का अवक्षेप बनाता है। यह यौगिक टॉलेन-अभिकर्मक अथवा फेलिंग-विलयन को अपचित नहीं करता और न ही यह ब्रोमीन जल अथवा ब्येर-अभिकर्मक को वर्णिवहीन करता है। यह क्रोमिक अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल (B) बनाता है जिसका आण्विक सूत्र  $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_2$  है। यौगिक (A) व (B) को पहचानिए एवं प्रयुक्त अभिक्रियाओं को समझाइए।

**हल** यौगिक (A) 2, 4-डी.एन.पी. व्युत्पन्न निर्मित करता है। अतः यह यौगिक कोई ऐलिडहाइड अथवा कीटोन है। चूँकि यह टॉलेन अभिकर्मक अथवा फेलिंग विलयन को अपचित नहीं करता, इसलिए यौगिक A एक कीटोन ही होना चाहिए। यौगिक A आयोडोफॉर्म परीक्षण देता

है। अतः यह मेथिल कीटोन ही होना चाहिए। यौगिक (A) का आण्विक सूत्र संकेत देता है कि यह अत्यधिक असंतृप्त है। परंतु फिर भी यह ब्रोमीन जल अथवा ब्येर अभिकर्मक को वर्णविहीन नहीं करता। इससे प्रदर्शित होता है कि असंतृप्तता ऐरोमेटिक वलय के कारण है।


यौगिक B एक कीटोन का ऑक्सीकरण उत्पाद है, अतः यह कार्बोक्सिलिक अम्ल होना चाहिए। यौगिक B का आण्विक सूत्र यह दर्शाता है कि यह बेन्जोइक अम्ल होना चाहिए। अतः यौगिक (A) एक मोनोप्रतिस्थापित ऐरोमैटिक मेथिल कीटोन होना चाहिए। यौगिक (A) का आण्विक सूत्र यह दर्शाता है कि यह केनिलमर्थलकीटोन (ऐसीटोफीनोन) होना चाहिए। अभिक्रियाएं निम्नप्रकार से होंगी—





#### 4. $\alpha$ -हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं

ऐल्डहाइड व कीटोन के  $\alpha$ -हाइड्रोजन परमाणुओं की अस्तिता—ऐल्डहाइड व कीटोन  $\alpha$ -हाइड्रोजन की अस्तिता के कारण कई अभिक्रियाएं देते हैं।

कार्बोनिल यौगिकों के  $\alpha$ -हाइड्रोजन परमाणुओं की अस्तिता कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन अपनयन कर लेने (खींच लेने) के प्रबल प्रभाव तथा संयुग्मी क्षार के अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेने के कारण होती है।




- (i) ऐल्डोल संघनन— जिन ऐल्डहाइडों व कीटोनों में कम से कम एक  $\alpha$ -हाइड्रोजन विद्यमान होती है, वे तनु क्षार के उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में एक अभिक्रिया द्वारा क्रमशः  $\beta$ -हाइड्रॉक्सी ऐल्डहाइड (एल्डोल) अथवा  $\beta$ -हाइड्रॉक्सी कीटोन (कीटोल) प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया को ऐल्डोल अभिक्रिया कहते हैं।




उत्पाद में विद्यमान दो प्रकार्यात्मक समूहों, ऐल्डहाइड व ऐल्कोहॉल के नामों से ऐल्डोल का नाम व्युत्पन्न होता है। ऐल्डोल व कीटोल आसानी से जल निष्कासित करके  $\alpha$ ,  $\beta$ -असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक देते हैं, जो ऐल्डोल संघनन उत्पाद हैं और यह अभिक्रिया ऐल्डोल संघनन कहलाती है। यद्यपि कीटोन, कीटोल (कीटो व ऐल्कोहॉल समूह युक्त यौगिक) निर्मित करते हैं फिर भी उनकी ऐल्डहाइडों के साथ समानता होने के कारण उनकी अभिक्रिया के लिए भी सामान्य नाम ऐल्डोल संघनन ही प्रयोग किया जाता है—

( ii ) क्रॉस ऐल्डोल संघनन – जब दो भिन्न-भिन्न ऐल्डहाइड और/या कीटोन के मध्य ऐल्डोल संघनन होता है तो उसे क्रॉस ऐल्डोल संघनन कहते हैं। यदि प्रत्येक में  $\alpha$ -हाइड्रोजन हो तो ये चार उत्पादों का मिश्रण देते हैं। इसे नीचे एथेनैल व प्रोपैनैल के मिश्रण की ऐल्डोल संघनन अभिक्रिया द्वारा समझाया गया है।





क्रॉस एल्डोल संघनन में कीटोन भी एक घटक के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं।




## 5. अन्य अभिक्रियाएँ

(i) कैनिजारो अभिक्रिया—ऐलिडहाइड, जिनमें  $\alpha$ -हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते सांद्र क्षार की उपस्थिति में गरम करने से स्वॉक्सीकरण व अपचयन (असमानुपातन) की अभिक्रियाएँ प्रदर्शित करते हैं। इस अभिक्रिया में ऐलिडहाइड का एक अणु ऐल्कोहॉल में अपचित होता है जबकि दूसरा अण कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में आक्सीकृत हो जाता है।



( ii ) इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया – ऐरोमेटिक ऐल्डहाइड व कीटोन उस बेन्जीन वलय पर इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जिसमें कार्बोनिल समूह निष्क्रियक तथा मेटा-निर्देशक होता है।




पाठ्यनिहित प्रश्न

**12.4** निम्नलिखित यौगिकों को नाभिकरागी योगज अभिक्रियाओं में उनकी बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए—

- (क) एथेनैल, प्रोपेनैल, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन  
 (ख) बेन्जिलिडहाइड, p-टॉलूएलिडहाइड, p-नाइट्रोबेन्जिलिडहाइड, ऐसीटोफीनोन  
 संकेत-त्रिविम प्रभाव व इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव को ध्यान में रखें।

### 12.5 निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पादों को पहचानिए—



## 12.5 ऐलिडहाइडों उवं कीटोनों कै उपयोग

रासायनिक उद्योग में ऐलिडहाइड एवं कीटोन अन्य उत्पादों के संश्लेषण के लिए विलायक, प्रारंभिक पदार्थ और अभिकर्मकों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फार्मेलिडहाइड का 40% जलीय विलयन फार्मोलिन के नाम से सुप्रसिद्ध है जो जैविक प्रतिदर्शों के परिरक्षण में तथा बैकालाइट के विरचन में (फ्रीनॉलफार्मेलिडहाइड रेज़िन), यूरिया फार्मेलिडहाइड सरेस तथा अनेक बहुलक उत्पादों में उपयोग होता है। ऐसीटैलिडहाइड मुख्यतः ऐसीटिक अम्ल, ऐथिल ऐसीटेट, वाइनिल ऐसीटेट बहुलकों एवं औषधों के उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। बेन्जैलिडहाइड का उपयोग सुगंध तथा रंजक उद्योग में किया जाता है। ऐसीटोन और ऐथिलमैथिल कीटोन सामान्य औद्योगिक विलायक हैं। कई ऐलिडहाइड एवं कीटोन, जैसे— ब्यूटैलिडहाइड, वेनेलिन, ऐसीटोफ्रीनोन, कपूर आदि अपनी सुगंध और सुरुचिकर प्रभाव के लिए सुप्रसिद्ध हैं।

### कार्बोक्सिलिक अम्ल

ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक,  $-COOH$  प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बोनिल समूह एक हाइड्रोक्सिल समूह के साथ जुड़ा रहता है, अतः इसका नाम कार्बोक्सिल है। कार्बोक्सिलिक समूह से संयुक्त ऐलिकल या ऐरिल समूह के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐलिफैटिक ( $RCOOH$ ) अथवा ऐरोमैटिक अम्ल ( $ArCOOH$ ) होते हैं। प्रकृति में कार्बोक्सिलिक अम्ल अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। कुछ ऐलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के उच्च सदस्य ( $C_{12}-C_{18}$ ), जिन्हें बसा अम्ल कहते हैं। प्राकृतिक बसाओं में ग्लिसरॉल के एस्टर के रूप में पाए जाते हैं; अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल अन्य महत्वपूर्ण यौगिकों, जैसे— एनहाइड्राइड, एस्टर, ऐसिड क्लोरोइड और ऐमाइडों के संश्लेषण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं।

## 12.6 कार्बोक्सिलिक समूह की नामपद्धति व संरचना




### 12.6.1 नामपद्धति

कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकृति से प्रारंभिक दौर में विलगित किए गए यौगिकों में से हैं, अतः इनमें से बहुत से सामान्य नामों से जाने जाते हैं। सामान्य नाम प्राकृतिक स्रोतों के लेटिन अथवा ग्रीक नामों से व्युत्पन्न होते हैं। और अंग्रेजी में लिखे नाम के अंत में अनुलग्न (ic) इक ऐसिड लगाते हैं, उदाहरणार्थ— फार्मिक ऐसिड या अम्ल, ( $HCOOH$ ) सर्वप्रथम लाल चीटियों से (लेटिन-फार्मिका का अर्थ चीटियाँ), ऐसीटिक अम्ल सिरके से (लेटिन-ऐसीटम का अर्थ सिरका), ब्यूटेरिक अम्ल ( $CH_3-CH_2-CH_2-COOH$ ) विकृतगंधी मक्खन से (लैटिन-ब्यूटिरम का अर्थ मक्खन) प्राप्त किया गया।

आईयूपीएसी (IUPAC) पद्धति में ऐलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण करने के लिए संगत ऐल्केन के अंग्रेजी में लिखे नाम के अंत में स्थित (-e) के स्थान पर ओइक (-oic) अनुलग्न लगाया जाता है। कार्बन शृंखला का अंकन करते समय कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन परमाणु को प्रथम संख्या (संख्या1) प्रदान की जाती है। एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह युक्त यौगिकों का नाम लिखने के लिए संगत ऐल्केन के अंग्रेजी में लिखे नाम के अंत में (e) वैसा ही रहता है। कार्बोक्सिल समूहों की संख्या गुणात्मक


पूर्वलग्न डाइ, ट्राइ इत्यादि को ओइक शब्द से पहले लिख कर इंगित की जाती है।  $-COOH$  समूह की स्थिति गुणात्मक पहले लिखी अरेबिक संख्या में दर्शाई जाती है। कुछ कार्बोक्सिलिक अम्लों के सामान्य और आईयूपीएसी नाम सारणी 12.3 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 12.3— कुछ कार्बोक्सिलिक अम्लों के नाम एवं संरचना

संरचना	सामान्य नाम	आईयूपीएसी नाम
HCOOH	फार्मिक अम्ल	मर्थेनॉइक अम्ल
$CH_3COOH$	ऐसीटिक अम्ल	एथेनॉइक अम्ल
$CH_3CH_2COOH$	प्रोपिओनिक अम्ल	प्रोपेनॉइक अम्ल
$CH_3-CH_2-CH_2-COOH$	ब्यूटाइरिक अम्ल	ब्यूटेनॉइक अम्ल
$(CH_3)_2CHCOOH$	आइसोब्यूटाइरिक अम्ल	2-मेर्थिलप्रोपेनॉइक अम्ल
HOOC-COOH	ऑक्सीएलिक अम्ल	एथेनडाइओइक अम्ल
HOOC - $CH_2$ -COOH	मेलोनिक अम्ल	प्रोपेनडाइओइक अम्ल
HOOC -( $CH_2$ ) <sub>2</sub> -COOH	सक्सीनिक अम्ल	ब्यूटेनडाइओइक अम्ल
HOOC -( $CH_2$ ) <sub>3</sub> -COOH	ग्लूटेरिक अम्ल	पेन्टेनडाइओइक अम्ल
HOOC -( $CH_2$ ) <sub>4</sub> -COOH	एडिपिक अम्ल	हेक्सेनडाइओइक अम्ल
HOOC - $CH_2$ -CH(COOH)- $CH_2$ -COOH		प्रोपेन-1,2,3-ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल
	बेन्जोइक अम्ल	बेन्जीनकार्बोक्सिलिक अम्ल (बेन्जोइक अम्ल)
	फेनिलऐसीटिक अम्ल	2-फेनिलएथेनॉइक अम्ल
	थैलिक अम्ल	बेन्जीन-1,2-डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल




### 12.6.2 कार्बोक्सिल समूह की संरचना

कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बोक्सिल कार्बन से संयुक्त सभी आबंध एक ही तल में होते हैं तथा एक-दूसरे से  $120^\circ$  के कोण द्वारा विलगित रहते हैं। कार्बोक्सिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन से निम्नलिखित अनुनादी संरचनाओं के कारण कम इलेक्ट्रोनरागी होता है—



#### पाठ्यनिहित प्रश्न

12.6 निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम दीजिए—





## 12.7 कार्बोविसलिक अम्ल बनाने की विधियाँ

कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की कछ महत्वपूर्ण विधियाँ निम्नलिखित हैं—

#### 1. प्राथमिक ऐल्कोहॉल व ऐलिंहाइड से


प्राथमिक ऐल्कोहल सामान्य ऑक्सीकरण कर्मकों, जैसे- उदासीन, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में पोटैशियम परमैग्नेट अथवा अम्लीय माध्यम में पोटैशियम डाइक्रोमेट और क्रोमियम टाइऑक्साइड द्वारा आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं।



मूदु आक्सीकरण कर्मकों के उपयोग से ऐल्डहाइड द्वारा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त किए जाते हैं (खंड 12.4)।




## २ ऐल्काल बेसीनों से

ऐरोमैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐल्किल बेन्जीनों के क्रोमिक अम्ल अथवा क्षारीय  $\text{KMnO}_4$  द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से विरचित किए जा सकते हैं। संपूर्ण पार्श्व शुरुखला चाहें किसी भी लंबाई की हो, ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिल समूह निर्मित करती है। प्राथमिक व द्वितीयक ऐल्किल समूह भी इसी प्रकार से ऑक्सीकृत होते हैं जबकि तृतीयक समूह प्रभावित नहीं होता। उपयुक्त रूप से प्रतिस्थापित ऐल्कीन भी इन ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न करती हैं। (देखें एकक 13 कक्षा XI)




### 3. नाइटाइल और ऐमाइड से

उत्प्रेरक के रूप में  $H^+$  या  $OH^-$  आयनों की उपस्थिति में नाइट्राइल पहले ऐमाइड और फिर अम्लों में जल अपघटित हो जाते हैं। अभिक्रिया को ऐमाइड पद पर रोकने के लिए मुद अभिक्रिया परिस्थितियाँ प्रयुक्त की जाती हैं।



#### 4. ग्रीन्यार अभिकर्मक से


ग्रीन्यार अभिकर्मक कार्बन डाइऑक्साइड (शुष्क बर्फ) के साथ अभिक्रिया से कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण निर्मित करते हैं, जो खनिज अम्ल द्वारा अम्लन से संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं।



जैसा कि हम जानते हैं; ग्रीन्यार अभिकर्मक एवं ऐलिकल नाइट्रोइल हैलाइडों से  $\text{f of fpr fd, t kl d rs g (m k, dd 10) d (lk XII)}$ । उपरोक्त विधियाँ (3 तथा 4) ऐलिकल हैलाइडों को संगत कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित करने में उपयोगी हैं जिसमें ऐलिकल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणुओं से एक कार्बन परमाणु अधिक विद्यमान होता है (श्रेणी का अवरोहण)।


#### 5. ऐसिल हैलाइड और एनहाइड्राइड से

ऐसिड क्लोराइड जल द्वारा जलअपघटित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल या जलीय क्षारीय माध्यम में अधिक आसानी से जलअपघटित होकर कार्बोक्सिलेट आयन देते हैं, जो अम्लन द्वारा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। दूसरी ओर ऐसिल एनहाइड्राइड जल द्वारा जलअपघटित होकर संगत अम्ल देते हैं।



#### 6. एस्टर से







एस्टरों के अम्लीय जल अपघटन से सीधे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। जबकि क्षारीय जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलेट प्राप्त होते हैं, जो अम्लन द्वारा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं।



उद्घासण 12.5

निम्नलिखित रूपांतरणों को करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए।

- (i) ब्यूटेन-1-ऑल से ब्यूटेनॉइक अम्ल
  - (ii) बेन्जाइल एल्कोहॉल से फेनिल एथेनॉइक अम्ल
  - (iii) 3-नाइट्रोबोनेजीन से 3-नाइट्रोबेन्जोइक अम्ल
  - (iv) 4-मेथिलऐसीटोफीनोन से बेन्जीन-1, 4-डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल
  - (v) साइक्लोहेक्सीन से हैक्सेन-1, 6-डाईओइक अम्ल
  - (vi) ब्यूटेनैल से ब्यूटेनॉइक अम्ल




## पाठ्यनिहित प्रश्न

12.7 निम्नलिखित यौगिकों को बेन्जोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है?

- (i) एथिलबेन्जीन
- (ii) ऐसीटोफीनोन
- (iii) ब्रोमोबेन्जीन
- (iv) फेनिलएथीन (स्टाइरीन)

## 12.8 भौतिक गुण



ऐलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की श्रेणी में नौ कार्बन परमाणुओं तक की शृंखला वाले सदस्य सामान्य ताप पर असुचिकर गंध वाले रंगहीन द्रव होते हैं। इस श्रेणी के उच्च सदस्य मोम जैसे ठोस होते हैं तथा अल्प वाष्पशील एवं व्यावहारिक रूप से गंधहीन होते हैं।

कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक समतुल्य आण्विक द्रव्यमानों वाले ऐलिडहाइडों, कीटोनों यहाँ तक कि ऐल्कोहॉलों से भी उच्च होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों का यह गुणधर्म उनके अणुओं में परस्पर अधिक व्यापक अंतराआण्विक हाइड्रोजन आबंधन द्वारा संगुणन के कारण उत्पन्न होता है। ये हाइड्रोजन आबंध वाष्प अवस्था में भी पूर्ण रूप से नहीं टूटते। वास्तव में अधिकांश कार्बोक्सिलिक अम्ल वाष्प प्रावस्था एवं ऐप्रोटिक विलायकों में हाइड्रोजन आबंधित द्वितय के रूप में उपस्थित होते हैं।

चार कार्बन परमाणु तक सरल ऐलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजन आबंध निर्मित कर सकने के कारण जल में मिश्रणीय होते हैं। कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ विलेयता घटती जाती है। उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोकार्बन शृंखला की जलविरागी अन्योन्यक्रिया बढ़ने के कारण विशेषकर जल में अविलेय होते हैं। बेन्जोइक अम्ल, जो कि सरलतम ऐरोमैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है; ठंडे जल में लगभग अविलेय होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बेन्जीन, ईथर, ऐल्कोहॉल, इत्यादि, जैसे क्रम ध्रुवीय विलायकों में भी विलेय होते हैं।


## 12.9 रासायनिक अभिक्रियाएं

### 12.9.1 अभिक्रियाएं जिनमें O-H आबंध का विदलन होता है


कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से वर्गीकृत हैं—

#### अम्लता

**धातु व क्षारों के साथ अभिक्रिया—** ऐल्कोहॉलों की तरह कार्बोक्सिलिक अम्ल विद्युत धनी धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं तथा फीनॉलों की तरह क्षारों के साथ लवण बनाते हैं। यह दुर्बल क्षारक जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजनकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। यह अभिक्रियाएं यौगिक में उपस्थित कार्बोक्सिलिक समूह को पहचानने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं।



कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में वियोजित होकर कार्बोक्सिलेट ऋणायन तथा हाइड्रोनियम आयन देते हैं जो अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करते हैं।



उपरोक्त अभिक्रिया के लिए—

$$K_{eq} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] [\text{RCOO}^-]}{[\text{H}_2\text{O}] [\text{RCOOH}]} \quad K_a = K_{eq} [\text{H}_2\text{O}] = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] [\text{RCOO}^-]}{[\text{RCOOH}]}$$

यहाँ  $K_{eq}$  साम्यावस्था स्थिरांक तथा  $K_a$  अम्ल वियोजन स्थिरांक है।

सुविधा के लिए अम्लों की सामर्थ्य सामान्यतः  $K_a$  मान की बजाय  $pK_a$  के मान से इंगत करते हैं।


$$pK_a = -\log K_a$$

हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के  $pK_a$  का मान -7.0 है, जबकि ट्राइफ्लुओरोऐसीटिक अम्ल (प्रबलतम कार्बनिक अम्ल), बेन्जोइक अम्ल तथा ऐसीटिक अम्ल के  $pK_a$  के मान क्रमशः: 0.23, 4.19 एवं 4.76 होते हैं।


अम्ल का  $pK_a$  मान जितना कम होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा (एक उत्तम प्रोटॉन दाता)। प्रबल अम्लों का  $pK_a$  मान 1 से कम होता है। मध्यम प्रबल अम्लों के  $pK_a$  मान 1 से 5 के मध्य होते हैं। दुर्बल अम्लों के  $pK_a$  के मान 5 से 15 के मध्य तथा अधिक दुर्बल अम्लों के  $pK_a$  मान 15 से अधिक होते हैं।

कार्बोक्सिलिक अम्ल खनिज अम्लों से दुर्बल होते हैं परंतु ऐल्कोहॉलों एवं अनेक सरल फीनॉलों से (ऐथेनॉल के  $pK_a$  का मान ~16 है तथा फीनॉल का  $pK_a$  मान 10 होता है) प्रबल होते हैं। वास्तव में आपने अब तक जिन कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया है उनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल सर्वाधिक अम्लीय हैं। आपको पहले से ही ज्ञात है कि फीनॉल ऐल्कोहॉल की अपेक्षा क्यों अधिक अम्लीय होते हैं। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्लों की फीनॉलों की अपेक्षा उच्च अम्लता को समझा जा सकता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का संयुग्मी क्षारक, कार्बोक्सिलेट आयन, दो समान अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है एवं इसमें ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर स्थित होते हैं। फीनॉल का संयुग्मी क्षारक एक फीनॉक्साइड आयन होता है, जिसकी अनुनादी संरचनाएं असमान होती हैं तथा इनमें ऋणावेश अल्प विद्युतऋणी कार्बन परमाणु पर स्थित होता है। इसलिए फीनॉक्साइड आयन में अनुनाद उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कार्बोक्सिलेट आयन में। कार्बोक्सिलेट आयन का ऋणावेश दो विद्युतऋणी ऑक्सीजन परमाणुओं पर विस्थानित होता है, जबकि फीनॉक्साइड आयन में यह ऋणावेश एक ऑक्सीजन परमाणु तथा कम विद्युतऋणी कार्बन परमाणु पर कम प्रभावशाली ढंग से विस्थानित होता है (एकक 11, कक्षा XII)। फलस्वरूप कार्बोक्सिलेट आयन, फीनॉक्साइड आयन की तुलना में अधिक स्थायित्व प्राप्त होता है। अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल फीनॉलों की अपेक्षा अधिक अम्लीय होते हैं।

कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव-प्रतिस्थापी संयुग्मी क्षारक के स्थायित्व को प्रभावित कर सकते हैं, अतः कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता को भी प्रभावित करते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह प्रेरणिक और/या अनुनादी प्रभाव द्वारा ऋणावेश को विस्थानित करके संयुग्मी क्षारक को स्थायित्व प्रदान करते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता बढ़ा देते हैं। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन दाता समूह संयुग्मी क्षारक को अस्थायित्व प्रदान करके अम्लता घटा देते हैं।




इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह (EWG) कार्बोक्सिलिक आयन को स्थायीकृत करते हैं जिससे अम्ल की सामर्थ्य बढ़ जाती है।




इलेक्ट्रॉन दाता समूह (EDG) कार्बोक्सिलेट आयन को अस्थायी बना देते हैं। और अम्ल को दुर्बल कर देते हैं।


निम्नलिखित समूहों का प्रभाव अम्लता बढ़ाने के क्रम में हैं।




अतः निम्नलिखित अम्लों को उनकी घटती हुई अम्लता के आधार पर व्यवस्थित किया गया है ( $\text{p}K_a$  मान क्रम पर आधारित) –



कार्बोक्सिल समूह पर फेनिल अथवा वाइनिल समूह के सीधे संयुक्त होने से संगत कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता बढ़ जाती है, जो नीचे दर्शाए गए अनुनाद प्रभाव के कारण अपेक्षित कमी के विपरीत है।



ऐसा कार्बोनिल समूह से संलग्नित  $sp^2$  संकरित कार्बन की उच्च विद्युतऋणात्मकता के कारण होता है। ऐरोमैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की फेनिल वलय पर इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह की उपस्थिति अम्लता को बढ़ाती है जबकि इलेक्ट्रॉन दाता समूह की उपस्थिति अम्लता को घटाती है।



4-मेथॉक्सीबेन्जोइक अम्ल  
( $\text{p}K_a = 4.46$ )


बन्जोइक अम्ल  
( $\text{p}K_a = 4.19$ )

4-नाइट्रोबेन्जोइक अम्ल  
( $\text{p}K_a = 3.41$ )

### 12.9.2 C-OH आबंध विदलन संबंधी अभिक्रियाएं

#### 1. एनहाइड्राइड का विरचन

कार्बोक्सिलिक अम्लों खनिज अम्लों जैसे  $\text{H}_2\text{SO}_4$  अथवा  $\text{P}_2\text{O}_5$  के साथ गर्म करने पर संगत एनहाइड्राइड बनते हैं।




#### 2. एस्टरीकरण

कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐल्कोहॉलों अथवा फीनॉलों द्वारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जैसे खनिज अम्ल उत्प्रेरकों की उपस्थिति में एस्टर बनाते हैं।




## कार्बोक्सिलिक अम्लों के उस्टरीकरण की क्रियाविधि

कार्बोक्सिलिक अम्लों का ऐल्कोहॉलों के साथ एस्टरीकरण एक प्रकार की नाभिकरागी ऐसिल प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कार्बोनिल की आँकड़ीजन का प्रोटॉन कार्बोनिल समूह को ऐल्कोहॉल के नाभिकरागी योगज के लिए सक्रिय कर देता है। चतुष्फलकीय मध्यवर्ती में एक प्रोटॉन का स्थानांतरण हाइड्रोक्सिल समूह को  $\text{-OH}_2$  समूह में परिवर्तित कर देता है जो एक अधिक अच्छा अवशिष्ट समूह होने के कारण, उदासीन जल अणु के रूप में विलोपित हो जाता है। अंततः इस प्रकार निर्मित प्रोटॉनित एस्टर प्रोटॉन को त्यागकर एक एस्टर दे देती है।




### 3. $\text{PCl}_5$ , $\text{PCl}_3$ एवं $\text{SOCl}_2$ के साथ अभिक्रिया


कार्बोक्सिलिक अम्लों का हाइड्रोक्सिल समूह, ऐल्कोहॉलों के हाइड्रोक्सिल समूह की भाँति व्यवहार करता है और फॉस्फोरस पेन्टाक्लोरोइड ( $\text{PCl}_5$ ), फॉस्फोरस ट्राइक्लोरोइड ( $\text{PCl}_3$ ) अथवा थायोनिल क्लोरोइड ( $\text{SOCl}_2$ ) के साथ अभिक्रिया द्वारा क्लोरीन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाता है। थायोनिल क्लोरोइड को वरीयता दी जाती है, क्योंकि इस अभिक्रिया के दो अन्य उत्पाद गैसीय होते हैं, जो अभिक्रिया मिश्रण से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए प्राप्त उत्पाद का परिशोधन सुगम हो जाता है।



### 4. अमोनिया के साथ अभिक्रिया

कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनिया के साथ अभिक्रिया द्वारा अमोनियम लवण बनते हैं जो अधिक उच्च ताप पर गर्म करने से ऐमाइड बनाते हैं। उदाहरणार्थ-






### 12.9.3 कार्बोक्सिलिक

**समूह**  
**(-COOH)**  
**संबंधी**  
**अभिक्रियाएं**


#### 1. अपचयन

कार्बोक्सिलिक अम्ल लीथियम ऐलुमिनियम हाइड्राइड अथवा डाइबोरेन द्वारा प्राथमिक ऐल्कोहॉलों में अपचित हो जाते हैं। डाइबोरेन, एस्टर, नाइट्रो, हैलो इत्यादि जैसे प्रकार्यात्मक समूहों को सरलतापूर्वक अपचित नहीं करता। सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोक्सिल समूह को अपचित नहीं करता।



#### 2. विकार्बोक्सिलन

कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों को सोडालाइम ( $\text{NaOH}$  तथा  $\text{CaO}$ , 3:1 के अनुपात में) के साथ गरम करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है एवं हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया विकार्बोक्सिलन (Decarboxylation) कहलाती है।




कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्षार धातु लवणों के जलीय विलयन का वैद्युतअपघटन द्वारा विकार्बोक्सिलन हो जाता है तथा ऐसे हाइड्रोकार्बन निर्मित होते हैं जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या, अम्ल के ऐल्किल समूह में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या से दुगुनी होती है। इस अभिक्रिया को कोल्बे वैद्युत-अपघटन (Kolbe Electrolysis) कहते हैं (एकक 13, कक्षा XI)।

### 12.9.4 हाइड्रोकार्बन भाग में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं


#### 1. हैलोजनन

ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें  $\alpha$ -हाइड्रोजन विद्यमान होता है, लाल फॉस्फोरस की अल्प मात्रा की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया द्वारा  $\alpha$ -हैलोकार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। इस अभिक्रिया को हेलफोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया (Hell-Volhard-Zelinsky Reaction) कहते हैं।



## 2. वलय प्रतिस्थापन

ऐरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जिनमें कार्बोक्सिल समूह एक निष्क्रियक एवं मेटा-निर्देशी समूह की भाँति व्यवहार करता है। ऐरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल **फ्रीडेल-क्राफ्ट्स** ( Friedel Crafts ) अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते। (चूँकि कार्बोक्सिल समूह निष्क्रियक समूह है एवं उत्प्रेरक ऐलुमिनियम क्लोराइड (लईस अम्ल) कार्बोक्सिल समूह से आबोधित हो जाता है।



## पाद्यनिहित प्रश्न

**12.8** नीचे प्रदर्शित अम्लों के प्रत्येक युग्म में कौन सा अम्ल अधिक प्रबल है?

- (i)  $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$  अथवा  $\text{CH}_2\text{FCO}_2\text{H}$
- (ii)  $\text{CH}_2\text{FCO}_2\text{H}$  अथवा  $\text{CH}_2\text{ClCO}_2\text{H}$
- (iii)  $\text{CH}_2\text{FCH}_2\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$  अथवा  $\text{CH}_3\text{CHFCH}_2\text{CO}_2\text{H}$



## 12.10 कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग

मेथेनाइक अम्ल रबर, वस्त्र, रँगाई, चमड़ा एवं इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योगों में उपयोग में आता है। एथेनाइक अम्ल विलायक के रूप में तथा खाद्य उद्योगों में सिरके के रूप में उपयोग किया जाता है। **हैक्सेनडाइओइक** अम्ल का उपयोग नाइलोन-6,6 के निर्माण में होता है। बेन्जोइक अम्ल की एस्टरों का उपयोग सुंगंध द्रव्यों में होता है। सोडियम बेन्जोएट का उपयोग खाद्य परिरक्षण में होता है। उच्चतर वसीय अम्लों का उपयोग साबुन एवं अपमार्जकों के उत्पादन में किया जाता है।

## सारांश

ऐल्डहाइड, कीटोन एवं कार्बोकिसलिक अम्ल, कार्बनिक यौगिकों के कुछ महत्वपूर्ण वर्ग हैं जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ये अत्यधिक ध्रुवीय अणु होते हैं। अतः ये हाइड्रोकार्बनों एवं तुलनीय आण्विक द्रव्यमानों वाले इथरों जैसे कम ध्रुवीय यौगिकों की तुलना में अधिक ताप पर उबलते हैं। इनके निम्नतर सदस्य जल में अत्यधिक विलय होते हैं, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बना सकते हैं। उच्चतर सदस्य अत्यधिक लंबी जल विरागी कार्बन शृंखला की उपस्थिति के कारण जल में अविलेय होते हैं किंतु सामान्य कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ऐल्डहाइडों को प्राथमिक ऐल्कोहॉलों के विहाइड्रोजेनन या नियंत्रित ऑक्सीकरण अथवा ऐसिल हैलाइडों के नियंत्रित अपचयन द्वारा विरचित किया जा सकता है। ऐरोमैटिक ऐल्डीहाइड भी ऑक्सीकरण द्वारा निम्न प्रकार से बनाए जा सकते हैं।

1. ऐसिटिक ऐनहाइड्राइड की उपस्थिति में मेथिल बेन्जीनों के क्रोमिलक्लोरोएट अथवा  $\text{CrO}_3$  द्वारा ऑक्सीकरण से।
2. निर्जल ऐलुमिनियम क्लोरोइड या क्यूप्रस क्लोरोइड की उपस्थिति में ऐरीनो के कार्बनमोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा फार्मिलन।
3. बैन्जल क्लोरोइड के जलअपघटन द्वारा।

कीटोनों को द्वितीयक ऐल्कोहॉलों के ऑक्सीकरण और ऐल्काइनों के जलयोजन (Hydration) से विरचित किया जाता है। कीटोनों को ऐसिल क्लोरोइड की डाइऐल्कल कैडमियम के साथ अभिक्रिया द्वारा भी बनाया जा सकता है। ऐरोमैटिक कीटोनों को विरचित करने की एक अच्छी विधि ऐरोमैटिक हाइड्रोकार्बनों का ऐसिल क्लोरोइडों तथा ऐनहाइड्राइडों द्वारा फ्रीडेल क्राफ्ट्स ऐसिलीन है। ऐल्डहाइड एवं कीटोन दोनों ही ऐल्कीनों के ओजोन द्वारा विरचित किए जा सकते हैं। ऐल्डहाइड एवं कीटोन  $\text{HCN}$ ,  $\text{NaHSO}_3$  ऐल्कोहॉलों (या डाइऑलों), अमोनिया व्युत्पन्नों और ग्रीन्यार अभिकर्मकों जैसे अनेक नाभिकरणियों (Nucleophiles) के साथ कार्बोनिल समूह पर नाभिकरणी योगज अभिक्रियाएं देते हैं। ऐल्डहाइड एवं कीटोनों में उपस्थित  $\alpha$ -हाइड्रोजन अम्लीय होते हैं। अतः कम से कम एक  $\alpha$ -हाइड्रोजन युक्त ऐल्डहाइड एवं कीटोन क्षार की उपस्थिति में ऐल्डोल संघनन द्वारा क्रमशः  $\alpha$ -हाइड्रॉक्सीऐल्डहाइड (ऐल्डोल) एवं  $\beta$ -हाइड्रॉक्सीकीटोन (कीटोल) बनाते हैं। ऐसे ऐल्डहाइड जिनमें  $\alpha$ -हाइड्रोजन नहीं होता है सांत्र क्षार की उपस्थिति में कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं।  $\text{LiAlH}_4 \text{NaBH}_4$  या उत्प्रेरित हाइड्रोजेनन से ऐल्डहाइड एवं कीटोन अपचयित होकर ऐल्कोहॉल बनाते हैं। ऐल्डहाइडों एवं कीटोनों का कार्बोनिल समूह क्लीमेन्सन अपचयन या बोल्फ किशनर अपचयन द्वारा मेथेलीन समूह में अपचयित हो जाता है। टॉलेन अभिकर्मक एवं फेलिंग विलयन के समान मृदु ऑक्सीकरण अभिकर्मक ऐल्डहाइडों को आसानी से कार्बोकिसलिक अम्लों में ऑक्सीकृत कर देते हैं। इन ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का उपयोग ऐल्डहाइडों एवं कीटोनों में विभेद करने में किया जाता है। कार्बोकिसलिक अम्लों का विरचन प्राथमिक ऐल्कोहॉलों, ऐल्डहाइडों एवं ऐल्कीनों के ऑक्सीकरण, नाइट्राइलों के जलअपघटन और ग्रीन्यार अभिकर्मकों की कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा किया जाता है। ऐरोमैटिक कार्बोकिसलिक अम्लों को भी पार्श्व शृंखला वाले ऐल्किलबेन्जीन के ऑक्सीकरण से विरचित किया जा सकता है। यद्यपि कार्बोकिसलिक अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में बहुत दुर्बल होते हैं, किंतु ऐल्कोहॉलों एवं अधिकतर अतिसरल फोनॉलों से काफी अधिक अम्लीय होते हैं। कार्बोकिसलिक अम्लों को  $\text{LiAlH}_4$  या इससे बेहतर इथर विलयन में डाइबोरेन द्वारा प्राथमिक ऐल्कोहॉलों में अपचयित किया जा सकता है। कार्बोकिसलिक अम्लों का लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में  $\text{Cl}_2$  या  $\text{Br}_2$  के साथ  $\alpha$ -हैलोजेनन होता है (हेलफोलार्ड जेलिंसकी अभिक्रिया)। मेथनैल, ऐथेनैल, प्रोपेनैल, बेन्जैलिडहाइड, फॉर्मिक अम्ल, ऐसिटिक अम्ल, बेन्जोइक अम्ल आदि अनेक कार्बोनिल यौगिक उद्योगों में महत्वपूर्ण हैं।

## अध्यात्म

12.1 निम्नलिखित पदों (शब्दों) से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए।

- |                     |                |                            |
|---------------------|----------------|----------------------------|
| (i) सायनोहाइड्रिन   | (v) हेमीऐसीटेल | (viii) इमीन                |
| (ii) ऐसिटल          | (vi) ऑक्सिम    | (ix) 2, 4 - DNP व्युत्पन्न |
| (iii) सेमीकार्बोजोन | (vii) कीटेल    | (x) शिफ-क्षारक             |
| (iv) ऐल्डोल         |                |                            |


**12.2** निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी (IUPAC) नामपद्धति में नाम लिखिए -

- |   |  |
|---|--|
| (i) $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$                       | (v) $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{COCH}_3$ |
| (ii) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$ | (vi) $(\text{CH}_3)_3\text{CCH}_2\text{COOH}$  |
| (iii) $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCHO}$   | (vii) $\text{OHCC}_6\text{H}_4\text{CHO}-p$  |
| (iv) $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{COCH}_3$  |  |

**12.3** निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए।

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| (i) 3-मेर्थिलब्यूटनैल               | (v) 4-क्लोरोप्रेटेन-2-ओन                     |
| (ii) <i>p</i> -नाइट्रोप्रोपिओफीनोन  | (vi) 3-ब्रोमो-4-फेनिल पेन्टनॉइक अम्ल         |
| (iii) <i>p</i> -मेर्थिलबेन्जलिडहाइड | (vii) <i>p,p'</i> -डाइहाइड्रोक्सीबेन्जोफीनोन |
| (iv) 4-मेर्थिलपेन्ट-3-ईन-2-ओन       | (viii) हेक्स-2-ईन-4-आइनोइक अम्ल              |

**12.4** निम्नलिखित ऐलिडहाइडों एवं कीटोनों के आईयूपीएसी (IUPAC) नाम लिखिए और जहाँ संभव हो सके साधारण नाम भी दीजिए।

- |  |  |
|--|--|
| (i) $\text{CH}_3\text{CO}(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$                         | (iv) $\text{Ph}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CHO}$  |
| (ii) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHBrCH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CHO}$ | (v)  |
| (iii) $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CHO}$                                 | (vi) $\text{PhCOPh}$   |

**12.5** निम्नलिखित व्युत्पन्नों की संरचना बनाइए-

- |  |  |
|--|--|
| (i) बेन्जेलिडहाइड का 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रोजोन | (iv) साइक्लोब्यूटेनोन का सेमीकार्बोजोन   |
| (ii) साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्सिम                       | (v) हेक्सेन-3-ओन का एथिलीन कार्टेल       |
| (iii) ऐसीटैलिडहाइडडाइमेरिथिलऐसीटेल                 | (vi) फॉर्मेलिडहाइड का मेर्थिल हेमीऐसीटेल |

**12.6** साइक्लोहेक्सेनकार्बोलिडहाइड की निम्नलिखित अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया से बनने वाले उत्पादों को पहचानिए-

- |  |   |
|--|---|
| (i) $\text{PhMgBr}$ एवं $\text{H}_3\text{O}^+$ | (iv) एथेनॉल का आधिक्य तथा अम्ल              |
| (ii) ट्यॉलेन अभिकर्मक                          | (v) ज़िंक अमलगम एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल |
| (iii) सेमीकार्बोजाइड एवं दुर्बल अम्ल           |   |

**12.7** निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में ऐल्डोल संघनन होगा, किनमें कैनिजारो अभिक्रिया होगी और किनमें उपरोक्त में से कोई क्रिया नहीं होगी? ऐल्डोल संघनन तथा कैनिजारो अभिक्रिया में संभावित उत्पादों की संरचना लिखिए।

- |                        |                       |                              |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| (i) मेर्थेनैल          | (iv) बेन्जोफीनॉन      | (vii) फेनिलऐसीटैलिडहाइड      |
| (ii) 2-मेर्थिलपेन्टनैल | (v) साइक्लोहेक्सेनोन  | (viii) ब्यूटेन-1-ऑल          |
| (iii) बेन्जलिडहाइड     | (vi) 1-फेनिलप्रोपेनोन | (ix) 2,2-डाइमेरिथिलब्यूटेनैल |

**12.8** एथेनॉल को निम्नलिखित यौगिकों में कैसे परिवर्तित करेंगे?










- |                       |                   |                          |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| (i) ब्यूटेन-1,3-डाइऑल | (ii) ब्यूट-2-इनैल | (iii) ब्यूट-2-इनॉइक अम्ल |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|

**12.9** प्रोपेनैल एवं ब्यूटेनैल के ऐल्डोल संघनन से बनने वाले चार संभावित उत्पादों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। प्रत्येक में बताइए कि कौन सा ऐलिडहाइड नाभिकरणी और कौन सा इलेक्ट्रॉनसारगी होगा?

**12.10** एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र  $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}$  है 2,4 DNP व्युत्पन्न बनाता है, ट्यॉलेन अभिकर्मक को अपचित करता है तथा कैनिजारो अभिक्रिया देता है। प्रबल ऑक्सीकरण पर वह 1,2-बेन्जीनडाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। यौगिक को पहचानिए।

**12.11** एक कार्बनिक यौगिक 'क' (आण्विक सूत्र,  $\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}_2$ ) को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जलअपघटित करने के उपरांत एक कार्बोक्सिलिक अम्ल 'ख' एवं एक ऐल्कोहॉल 'ग' प्राप्त हुई। 'ग' को क्रोमिक अम्ल के साथ आँक्सीकृत करने पर 'ख' उत्पन्न होता है। 'ग' निर्जलीकरण पर ब्यूट-1-इन देता है। अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाली सभी रासायनिक समीकरणों को लिखिए।

- 12.12** निम्नलिखित यौगिकों को उनसे संबंधित (कोष्ठकों में दिए गए) गुणधर्मों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए—  
 (i) ऐसीटैलिडहाइड, ऐसीटोन, डाइ-वृतीयक-ब्लूटिलकीटोन, मेथिलवृतीयक-ब्लूटिलकीटोन (HCN के प्रति अभिक्रियाशीलता)  
 (ii)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{Br})\text{COOH}$ ,  $\text{CH}_3\text{CH}(\text{Br})\text{CH}_2\text{COOH}$ ,  $(\text{CH}_3)_2\text{CHCOOH}$ ,  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$  (अम्लता के क्रम में)  
 (iii) बेन्जोइक अम्ल; 4-नाइट्रोबेन्जोइक अम्ल; 3,4-डाइनाइट्रोबेन्जोइक अम्ल; 4-मेथाक्सी बेन्जोइक अम्ल (अम्लता की सामर्थ्य के क्रम में)
- 12.13** निम्नलिखित यौगिक युगलों में विभेद करने के लिए सरल रासायनिक परीक्षणों को दीजिए—  
 (i) प्रोपेनैल एवं प्रोपेनोन  
 (ii) ऐसीटोफीनान्न एवं बेन्जोफीनोन  
 (iii) फीनैल एवं बेन्जोइक अम्ल  
 (iv) बेन्जोइक अम्ल एवं एथिनबेन्जोएट  
 (v) पेन्टेन-2-ऑन एवं पेन्टेन-3-ऑन  
 (vi) बेन्जैलिडहाइड एवं ऐसीटोफीनोन  
 (vii) एथेनैल एवं प्रोपेनैल
- 12.14** बेन्जीन से निम्नलिखित यौगिकों का विरचन आप किस प्रकार करेंगे? आप कोई भी अकार्बनिक अभिकर्मक एवं कोई भी कार्बनिक अभिकर्मक, जिसमें एक से अधिक कार्बन न हो, का उपयोग कर सकते हैं।  
 (i) मेथिल बेन्जोएट  
 (ii) *m*-नाइट्रोबेन्जोइक अम्ल  
 (iii) *p*-नाइट्रोबेन्जोइक अम्ल  
 (iv) फेनिलऐसीटिक अम्ल  
 (v) *p*-नाइट्रोबेन्जैलिडहाइड
- 12.15** आप निम्नलिखित रूपांतरणों को अधिकतम दो चरणों में किस प्रकार से संपन्न करेंगे?  
 (i) प्रोपेनोन से प्रोपीन  
 (ii) बेन्जोइक अम्ल से बेन्जैलिडहाइड  
 (iii) एथेनैल से 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनैल  
 (iv) बेन्जीन से *m*-नाइट्रोऐसीटोफीनोन  
 (v) बेन्जैलिडहाइड से बेन्जोफीनैल  
 (vi) ब्रोमोबेन्जीन से 1-फेनिलएथेनैल  
 (vii) बेन्जैलिडहाइड से 3-फेनिलप्रोपेन-1-ऑल  
 (viii) बेन्जैलिडहाइड से  $\alpha$ -हाइड्रोक्सीफेनिलऐसीटिक अम्ल  
 (ix) बेन्जोइक अम्ल से *m*-नाइट्रोबेन्जिल ऐल्कोहॉल
- 12.16** निम्नलिखित पदों (शब्दों) का वर्णन करो—  
 (i) ऐसीटिलिन  
 (ii) कैनिजारो अभिक्रिया  
 (iii) क्रॉस ऐल्डोल संघनन  
 (iv) विकार्बोक्सिलन
- 12.17** निम्नलिखित प्रत्येक संश्लेषण में छूटे हुए प्रारंभिक पदार्थ, अभिकर्मक अथवा उत्पादों को लिखकर पूर्ण कीजिए—
















**12.18** निम्नलिखित के संभावित कारण दीजिए-


- साइक्लोहेक्सेनोन अच्छी लव्धि में सायनोहाइड्रन बनाता है। परंतु 2, 2, 6-ट्राइमेथिलसाइक्लोहेक्सेनोन ऐसा नहीं करता।
- सेमीकार्बोजाइड में वो  $\text{-NH}_2$  समूह होते हैं, परंतु केवल एक  $\text{-NH}_2$  समूह ही सेमीकार्बोजाइन विरचन में प्रयुक्त होता है।
- कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं ऐल्कोहॉल से, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एस्टर के विरचन के समय जल अथवा एस्टर जैसे ही निर्मित होता है उसको निकाल दिया जाना चाहिए।

**12.19** एक कार्बनिक यौगिक में 69.77% कार्बन 11.63% हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन है। यौगिक का आण्विक द्रव्यमान 86 है। यह टॉलेन अधिकर्मक को अपचित नहीं करता परंतु सोडियम हाइड्रोजनसल्फाइट के साथ योगज यौगिक देता है तथा आयोडोफार्म परीक्षण देता है। प्रबल ऑक्सीकरण पर एथेनॉइक अम्ल देता है। यौगिक की संभावित संरचना लिखिए।


**12.20** यद्यपि फीनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं कार्बोक्सिलेट आयन की तुलना में अधिक है परंतु कार्बोक्सिलिक अम्ल फीनॉल की अपेक्षा प्रबल अम्ल है। क्यों?

## कुछ पाठ्यनिहित प्रश्नों के उत्तर





- 12.6** (i) 3-फेनिलप्रोपेनाइक अम्ल  
 (ii) 3-मेर्थिलब्यूट-2-इनोइक अम्ल  
 (iii) 2-मेर्थिलसाइक्लोपेन्टेनकार्बोक्सिलिक अम्ल  
 (iv) 2,4,6-ट्राइनाइट्रोबेन्जोइक अम्ल



- 12.8** (i)  $\text{CH}_3\text{COOH}$   
 (ii)  $\text{CH}_2\text{FCOOH}$   
 (iii)  $\text{CH}_3\text{CHFCH}_2\text{COOH}$   
 (iv)